

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 425]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 सितम्बर 2014—भाद्र 21, शक 1936

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

कार्यालय, आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2014

क्र. 3422-सामान्य-2-2014.—नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23, सन् 1956) की धारा 10 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विषय पर पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को अधिष्ठित करते हुए, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट नगर निगम के सम्बन्ध में उक्त सारणी के तत्स्थानी कॉलम (3) में यथानिर्दिष्ट वार्डों की संख्या अवधारित की जाती है:—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	नगर निगम का नाम (2)	वार्डों की संख्या (3)
1	नगरपालिक निगम, भोपाल	85

एस. बी. सिंह, संभागीय आयुक्त.